



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 आश्विन 1936 (श0)

(सं0 पटना 803) पटना, मंगलवार, 7 अक्टूबर 2014

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

22 सितम्बर 2014

सं0 22/नि0सि0(दर0)—16—13/2011/1403—पश्चिमी कोशी मुख्य नहर के वि0 दू0 116.70 के निकट दिनांक 06.08.11 के प्रातः में लगभग 20 फीट में हुए नहर टुटान के संबंध में श्री विनय कुमार, सहायक अभियन्ता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमण्डल सं0—1, राजनगर से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी एवं समीक्षोपरान्त नहर के जलश्राव के समय चौकसी एवं निगरानी नहीं बरतने, कर्तव्यहीनता एवं लापरवाही के कारण नहर टूटने इत्यादि प्रथम दृष्टया प्रमाणित गंभीर आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना सं0—1293 दिनांक 17.10.11 द्वारा श्री विनय कुमार, सहायक अभियन्ता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमण्डल सं0—1, राजनगर को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1606 दिनांक 27.12.11 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 में विहित रीति से विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

विभागीय कार्यवाही में समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री विनय कुमार, सहायक अभियन्ता की निलंबन अवधि दो वर्ष से अधिक हो गयी है जबकि दो वर्ष से अधिक निलंबन नहीं होना चाहिए। अतः विभागीय कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना श्री कुमार को निलंबन मुक्त करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है।

अतः सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में श्री विनय कुमार, सहायक अभियन्ता को तत्काल प्रभाव से निलंबन मुक्त किया जाता है।

2. निलंबन अवधि के वेतनादि देयता के संबंध में विभागीय कार्यवाही के निष्पादन के पश्चात निर्णय लिया जाएगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
गजानन मिश्र,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 803-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>